

the cases, the Port licensing authorities might have issued licences to such nominee-manufacturers but this could not be treated as a sale of licence.

तम्बाकू के स्टॉक का जमा होना

4197. श्री गं० च० बीक्षित : क्या बंदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मध्य प्रदेश में घटिया किस्म के तम्बाकू का कितना तथा कितने मूल्य का स्टॉक जमा हो गया है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम तम्बाकू के इस स्टॉक को अपने हाथ में लेगा और यदि हां तो कितना; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश से कितना तथा कितने मूल्य का घटिया था बढ़िया किस्म का तम्बाकू का निर्यात किया गया और यह तम्बाकू किन देशों को निर्यात किया गया है ?

बंदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) इस वर्ष मध्य प्रदेश में घटिया किस्म के तम्बाकू के स्टॉक जमा हो जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास

4198. श्री गं० च० बीक्षित : क्या व्यापार बंदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई थी;

(ख) वर्ष 1969 में इस उद्योग के विकास के लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है;

(ग) इस उद्योग के विकास के लिये और अधिक सहायता देने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार के क्या प्रस्ताव हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन बुनकरों को सहायता देने का है जिनके परिवार पूरी तरह इस उद्योग पर आश्रित हैं ?

बंदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1968-69 में 19.83 लाख रु० का व्यय किया गया ।

(ख) वर्ष 1969-70 में राज्य सरकार द्वारा 11.11 लाख रु० के आबंटन का विचार है ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये 88.75 लाख रु० की कुल राशि का प्रस्ताव किया है ।

(घ) उन बुनकरों को सहायता दी जाती है जो सहकारी समितियों के सदस्य ह ।

Allotment of Land to Landless Army Personnel in Madhya Pradesh

4199. SHRI G. C. DIXIT: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of landless army personnel in Madhya Pradesh who have been allotted land during the last two years; and

(b) the number of applications for allotment of land still under consideration in Hoshangabad and East Nimad districts?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA): (a) and (b). The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.